

सराहनीय कार्य

जनपद बस्ती

दिनांक 19.06.2022

थाना परसरामपुर पुलिस, एण्टी नारकोटिक्स टीम व सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्यवाही द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए तीन अभियुक्तों को लूट के सामान के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री दीपेन्द्र चौधरी के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी हौंया श्री शेषमणि उपाध्याय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना परसरामपुर पुलिस, एण्टी नारकोटिक्स टीम व सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्यवाही द्वारा थाना परसरामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 254/22 धारा-392, 411, 120B IPC से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाईकिल व लूट का रूपये 14000/- नगद, 02 अदद तमंचा व दो अदद कारतूस क्रमशः 315 बोर व 12 बोर के साथ आज दिनांक 19.06.2022 समय करीब 13.10 बजे पशु अस्पताल तिराहा थाना परसरामपुर, जनपद बस्ती से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना परसरामपुर पर मु0अ0सं0 254/2022 धारा-392, 411, 120B IPC व मु0अ0सं0 258/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट तथा मु0अ0सं0 259/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय बस्ता रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- (01) हरिनारायन सिंह पुत्र सुबेदार सिंह निवासी ग्राम सिरसहवा थाना परसरामपुर जिला बस्ती।
- (02) सौरभ सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी ग्राम सिरसहवा थाना परसरामपुर जिला बस्ती।
- (03) प्रिंस सिंह पुत्र मनोज सिंह निवासी ग्राम कोहराये थाना परसरामपुर जिला बस्ती।

बरामदगी का विवरण-

- (01) एक अदद मोटरसाईकिल पैशन प्रो (वाहन सं0 UP43 N 5637) (लूट की)।
- (02) रूपये 14000/- बरामद (लूट की)।
- (03) एक अदद कट्टा 12 बोर एक अदद जिन्दा कारतूस (प्रिंस सिंह पुत्र मनोज सिंह)।
- (04) एक अदद कट्टा 315 बोर व एक अदद कारतूस 315 बोर (हरिनारायन सिंह पुत्र सुबेदार सिंह)।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी जयप्रकाश वर्मा द्वारा थाना परसरामपुर पर दिनांक 18.06.2022 को प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 14.06.2022 को वह सपरिवार अपने घर से मोटरसाईकिल पर सवार होकर नन्दनगर चौरी जा रहे थे कि शाम समय करीब 07.30 बजे रास्ते में कुशमौर व जटवलिया के पास पीछे से दो मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति मेरे सामने आकर मुझे रोकने का इशारा किए। जब मैं अपना मोटरसाईकिल रोका तो रास्ता पछुने के बहाने मेरी मोटरसाईकिल की चाभी निकाल कर मुझे कट्टा दिखाकर पास रखे आभूषण व रूपये मागने लगे। हम लोग डर गए जिससे मेरी पत्नी ने अपने पर्स में रखे रु0 12000/- नगद, कान का झुमका, सोने का मंगलसूत्र तथा मेरे पास रखे रु0 2600/- व आधार कार्ड लेकर भाग गए। जिसके सम्बन्ध में थाना परसरामपुर पर मु0अ0सं0 254/22 धारा-392, 411, 120B IPC पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक आज दिनांक 19.06.2022 समय करीब 13.10 बजे लूट में शामिल अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाईकिल व लूट का रूपये 14000/- नगद, 02 अदद तमंचा व दो अदद कारतूस क्रमशः 315 बोर व 12 बोर के साथ पशु अस्पताल तिराहा थाना परसरामपुर, जनपद बस्ती से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. थानाध्यक्ष परसरामपुर श्री अरविन्द कुमार शाही जनपद बस्ती ।
02. प्रभारी एंटी नार्कोटिक्स टीम उ0नि0 श्री रोहित उपाध्याय जनपद बस्ती ।
03. प्रभारी चौकी सिकन्दरपुर उ0नि0 पवन मिश्रा थाना परसरामपुर जनपद बस्ती ।
04. उ0नि0 सुरेश कुमार, उ0नि0 अजय सिंह थाना परसरामपुर जनपद बस्ती ।
05. उ0नि0 शशिकान्त, का0 सतेन्द्र सर्विलांस टीम जनपद बस्ती ।
06. हे0का0 महेन्द्र यादव, हे0का0 कुलदीप यादव, का0 शिवचरन चौहान, का0 रवि प्रताप सिंह एंटी नार्कोटिक्स टीम जनपद बस्ती ।
07. का0 गुलशन कुमार, का0 राजकुमार, का0 सुनील कुमार थाना परसरामपुर जनपद बस्ती ।

